

Dan

Chapter 12

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וּבְעֵת וְהָיָא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַשָּׂר הַגָּדוֹל הָעֹמֵד עַל-בְּנֵי עַמֶּנָּה 1
 और-में-समय उस खड़ा-होगा उस मीकाएल प्रधान महान खड़ा-रहनेवाला पर-पुत्रों-के तरे-लोगों-के
[H6256](#) [H1931](#) [H5975](#) [H1931](#) [H5975](#) [H4317](#) [H8269](#) [H5975](#) [H6256](#)

וְהָיָא עַתָּה אֲשֶׁר לֹא-נָהְיָתָה הַמְּהִינֹת גְּוֵי עַד הָעֵת וְהָיָא וּבְעֵת
 और-होगा समय संकट-का जो नहीं-हुआ होने-से जाति तक समय-के उस और-में-समय
[H6256](#) [H1931](#) [H6256](#) [H5704](#) [H1961](#) [H1961](#) [H3808](#) [H6256](#) [H1961](#)

וְהָיָא יְמֵלֶט עַמֶּנָּה כָּל-הַנְּמָצָא כְּתוּב בְּסֵפֶר:
 उस बचाया-जाएगा तेरी-प्रजा सब-पाया-जानेवाला लिखा-हुआ पुस्तक-में
[H4422](#) [H1931](#) [H3605](#) [H4672](#) [H3789](#)

“दर्शन वाले व्यक्ति ने कहा, ‘हे दानिय्येल, उस समय मीकाएल नाम का वह प्रधान स्वर्गदूत उठ खड़ा होगा। मीकाएल तुम्हारे यहूदी लोगों का संरक्षक है। फिर एक विपत्तिपूर्ण समय आयेगा। वह समय इतना भयानक होगा, जितना भयानक इस धरती पर, जब से कोई जाति अस्तित्व में आयी है, कभी नहीं आया होगा। किन्तु हे दानिय्येल, उस समय तेरे लोगों में से हर वह व्यक्ति जिसका नाम, जीवन की पुस्तक में लिखा मिलेगा, बच जायेगा।

וּרְבִים מִיַּשְׁנֵי אֲדַמַת-עָפָר יִקְיָצוּ אֵלֶיךָ לְחַיֵּי עוֹלָם וְאֵלֶיךָ לְחַרְפוֹת 2
 और-बहुत सोनेवालों-में-से भूमि-की-धूल जागेंगे ये जीवन-के-लिए सदा-के और-ये निन्दा-के-लिए
[H3463](#) [H0127](#) [H6083](#) [H6974](#) [H0428](#) [H5769](#) [H0428](#) [H2781](#)

וְלִדְרָאוֹן עוֹלָם:
 घृणा-के-लिए सदा-के
[H5769](#) [H1860](#)

धरती के वे असंख्य लोग जो मर चुके हैं और जिन्हें दफ़नाया जा चुका है, उठ खड़े होंगे और उनमें से कुछ अन्नत जीवन जीने के लिए उठ जायेंगे। किन्तु कुछ इसलिये जागेंगे कि उन्हें कभी नहीं समाप्त होने वाली लज्जा और घृणा प्राप्त होगी।

וְהִמְשִׁכְּלִים וְהָיָא כְּזֶמְרֵי יְהוָה וְהָיָא חַמְקֵי יְהוָה וְהָיָא חַמְקֵי יְהוָה 3
 और-बुद्धिमान ज्योति-जैसी चमकेंगे आकाशमण्डल-की ज्योति-जैसी चमकेंगे और-धर्म-ठहरानेवाले
[H2096](#) [H7549](#) [H6663](#) [H3556](#) [H5769](#)

וְעַד:
 और-सर्वदा
[H5703](#)

आकाश की भव्यता के समान बुद्धिमान पुरुष चमक उठेंगे। ऐसे बुद्धिमान पुरुष जिन्होंने दूसरों को अच्छे जीवन की राह दिखाई थी, अनन्त काल के लिये तारों के समान चमकने लगेंगे।’

וְהָיָא דַּנְיֵאל וְהָיָא דַּנְיֵאל וְהָיָא דַּנְיֵאל 4
 और-तू दानिय्येल दानिय्येल दानिय्येल
[H1840](#) [H1697](#) [H2856](#) [H5704](#) [H6256](#) [H7093](#)

וְהָיָא בִּדְעָתָהּ:
 और-बढ़ेगी बुद्धि
[H1847](#)

“किन्तु हे दानिय्येल! इस सन्देश को तू छिपा कर के रख दे। तुझे यह पुस्तक बन्द कर देनी चाहिये। तुझे अंत समय तक इस रहस्य को छिपाकर रखना है। सच्चा ज्ञान पाने के लिये बहुत से लोग इधर—उधर भाग दौड़ करेंगे और इस प्रकार सच्चे ज्ञान का विकास होगा।”

מַאֲתָיִם	אַלְף	יָמִים	שָׁמֶם	שְׁקוּץ	וְלֶהֱת	הַתְּמִיד	הוֹטָר	וַיָּמַעַת	11
दो-सौ	हजार	दिन	उजाड़नेवाली	घृणित-वस्तु	और-देने-के-लिए	नित्य-का	हटाया-गया	और-से-समय	
H3967	H0505	H3117	H8074	H8251	H5414	H8548	H5493	H6256	

וַתִּשְׁעִים:
और-नब्बे

[H8673](#)

“जब दैनिक बलियाँ रोक दी जायेंगी तब से अब तक, जब वहाँ कुछ ऐसी भयानक घृणित वस्तु स्थापित होगा जो सचमुच विनाशक होगा, एक हजार दो सौ नब्बे दिनों का समय बीत चुका होगा।

וַחֲמִשָּׁה:	שְׁלֹשִׁים	מֵאוֹת	שְׁלֹשׁ	אַלְף	לְיָמִים	וַיָּגִיעַ	הַמְּחִכָּה	אֲשֶׁרִי	12
और-पैंतीस	तीस	सौ	तीन	हजार	दिनों-तक	और-पहुँचे	प्रतीक्षा-करनेवाला	धन्य	
H2568	H7970	H3967	H7969	H0505	H3117	H5060	H2442	H0835	

वह व्यक्ति जो प्रतीक्षा करते हुए इन एक हजार तीन सौ पैंतीस दिनों के समय के अंत तक पहुँचेगा, वह बहुत अधिक भाग्यशाली होगा।

הַיָּמִין:	לְקִין	לְגִדְלָה	וַתִּעַמַּד	וַתִּנּוּחַ	לְקִין	לָךְ	וַאֲתָהּ	13
दिनों-के	अन्त-में	तेरे-भाग-के-लिए	और-खड़ा-होगा	और-विश्राम-करेगा	अन्त-तक	जा	और-तू	
H3117	H7093	H1486	H5975	H5117	H7093	H3212		

“हे दानिय्येल। जहाँ तक तेरी बात है, जा और अंत समय तक अपना जीवन जी। तुझे तेरा विश्राम प्राप्त होगा और अंत में तू अपना भाग प्राप्त करने के लिये मृत्यु से फिर उठ खड़ा होगा।”